



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
RAJASTHAN, JAIPUR
ORDER**

Jaipur September 04, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 8653 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Council Dausa has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Dausa. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

नगर परिषद दौसा जिला दौसा
प्रपत्र-क
नगर परिषद, दौसा जिला दौसा

वार्ड संख्या	विवरण
1.	एनएच-21 पूर्व एनएच-11 आगरा रोड पर आदर्श विद्या मंदिर स्कूल को छोड़ते हुए उसके सामने से उत्तर दिशा की ओर मुड़ते हुए नगरीय सीमा के सहारे-सहारे बैरवा की ढाणी को शामिल करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर को छोड़ते हुए नमकीन फैक्ट्री को शामिल करते हुए पार्श्व हाउस को शामिल करते हुए सागर मेडिकल को शामिल करते हुये सैंथल रोड से दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़कर शिव मन्दिर को शामिल करते हुये बृजमोहन गोयल के मकान पर पहुंचकर गिराज प्रसाद शर्मा के मकान को लेते हुये छोटूराम प्रजापत के मकान पर पहुंच कर रोड क्रांस कर रामू प्रजापत के मकान को लेकर दक्षिणी-पश्चिमी दिशा की ओर मुड़कर रोड के सहारे-सहारे खाली भूखण्डों को शामिल करते हुए काका जी फार्म हाउस को शामिल कर दक्षिणी-पूर्वी दिशा की ओर मोडा बालाजी रोड पर मुड़ते हुए भंवर सिंह अन्दाणा की दुकान को शामिल करते हुए लक्ष्मी ऑटो सर्विस सेंटर को शामिल कर पश्चिमी दिशा की ओर मुड़ते हुए श्री कृष्णा धर्मकांटा को शामिल करते हुए केनाल को शामिल करते हुए विपुल मोटर्स को शामिल करते हुए बाईपास तिराया पर पहुंचकर कार सर्विस सेंटर को लेते हुए सैनी ज्यूस को

	शामिल करते हुए मिडवे को शामिल करते हुए आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के सामने नगरीय सीमा तक उत्तर दिशा की सम्पूर्ण आबादी वार्ड नम्बर 1 में है।
2.	सैंथल रोड पर दुर्गा मंदिर से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर मोडा बालाजी रोड पर चलते हुए ई-मित्र की दुकान को शामिल करते हुए पवन चायवाले को छोड़ते हुए गिराजधरण प्रोविजनल स्टोर की दुकान को लेते हुए अन्दाणा जी के मकान को शामिल करते हुए श्री कृष्णा आईटीआई को शामिल करते हुए काका जी फार्म हाउस को छोड़ते हुए वहां से उत्तर की ओर मुड़ते हुए विजय टैन्ट हाउस वालो के मकान को शामिल आर के परैवा के मकान को शामिल करते हुये लालराम बैरवा के मकान से पूर्व की ओर हनुमान प्रजापत के मकान को छोड़ते हुये रामजीलाल शर्मा के मकान को शामिल करते हुये विक्रमादित्य स्कूल को शामिल करते हुये पांचाल के मकान को शामिल करते हुये सैंथल रोड पहुंचकर दाता मिष्ठान भंडार को शामिल करते हुये दक्षिण -पूर्व की ओर चलते हुये मदन लाल गोस्वामी के मकान को लेते हुए केदार चांदराना शॉप को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर चलते हुए निरंकारी कारशीट की शॉप को शामिल करते हुए मतस्य महाविद्यालय को शामिल करते हुए खाली खेतों की ओर दक्षिणी दिशा की ओर चलते हुए पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुए खाली भूखण्डों की बाउन्ड्रीवाल को छोड़ते हुए जगदीश नारायण रामस्वरूप के खेतों को शामिल करते हुए चांदा के खेत को शामिल करते हुए मेवाराम के मकान को शामिल करते हुए लक्ष्मण मीणा के मकान को शामिल करते हुए रामसिंह तमोलिया के मकान को छोड़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर नहर के सहारे-सहारे चलते हुए सैंथल रोड को क्रॉस कर दुर्गा मंदिर तक पहुंचकर बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 02 में है।
3.	सैंथल रोड पर शिव मंदिर से शुरू होकर गंगा सहाय सैनी के मकान से प्रारम्भ होकर राधा डेन्टल हॉस्पिटल पहुंचकर भगवान पान भंडार को शामिल करते हुए वाहन शॉप को शामिल करते हुए वहां से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए पंडित कचौरी वाले की दुकान को शामिल करते हुए अशोका टायर्स को शामिल करते हुए आंकड की जमीन को शामिल करते हुए पोल फैक्ट्री को शामिल करते हुए बाईपास तिराहे पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुड़ते हुए पूर्वी आबादी में मामोडिया हाउस को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए बाईपास पर बढ़ते हुए जयसिंह गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए पवन चायवाले की दुकान को शामिल करते हुए मोडा बालाजी रोड पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए शिव मंदिर तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 03 में है।
4.	रेल्वे ऑवरब्रिज के पास विनोद बिहारी शर्मा के भवन से शुरू होकर जयपुर रोड पर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए हिन्दुस्तान ऑटोमोबाईल को शामिल करते हुए पारीक हॉस्पिटल को शामिल करते हुए महेन्द्र चांदा की बिल्डिंग को शामिल करते हुए दुर्गा मेडिकल को शामिल करते हुए शर्मा इण्डस्ट्रीज को शामिल करते हुए सैंथल रोड पर पहुंचकर पश्चिमी-उत्तरी दिशा की ओर चलते हुए दौसा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को शामिल करते हुए मिनी बैंक को शामिल करते हुए शिव मिष्ठान भण्डार को छोड़ते हुए पूर्व दिशा की ओर नहर के सहारे-सहारे बढ़ते हुए सिद्धी विनायक स्कूल को शामिल करते हुए रामसिंह तमोलिया के मकान को शामिल करते हुए उत्तर की ओर घूमकर लक्ष्मण मीणा के मकान को छोड़ते हुए गोकूल मीणा के

	<p>मकान को शामिल करते हुए खाली खेत शामिल करते हुए सीसी रोड पर चलते हुए मतस्य महाविद्यालय को छोड़ते हुए बाईपास आगरा रोड पर चढकर रोड के सहारे सहारे चलते हुए दक्षिणी आबादी में रामदेव स्टोन की दुकान को शामिल करते हुए दक्षिणी आबादी को लेते हुए एनएच-21 पूर्व एनएच-11 आगरा रोड के सहारे-सहारे मोती मीना के मकान को छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ते हुए हैण्डपम्प को व पप्पूलाल के मकान को लेते हुए श्रीराम मीणा के मकान को लेते हुए शम्भू मीणा के मकान को शामिल करते हुए रमशी मीणा फतेहलाल मीणा के मकान को शामिल करते हुए खाली भूमि को शामिल करते हुए रामजीलाल के मकान को छोड़ते हुए वहां से पूर्व की ओर मुड़कर रामखिलाडी मीणा के मकान को लेते हुए वहां से दक्षिण की ओर चलते हुए हजारी मीणा व कजोड मीणा के मकान को शामिल करते हुए रामजीलाल टेंट हाउस को शामिल करते हुए प्रभूदयाल मीणा के मकान को छोड़ते हुए आदर्श विद्या मंदिर स्कूल को शामिल करते हुए गोलछा गार्डन तक पहुंचकर व शामिल करते हुए रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे रेल्वे ऑवरब्रिज के नीचे विनोद बिहारी शर्मा के मकान तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 04 में है।</p>
5.	<p>रेल्वे ऑवरब्रिज के नीचे से गुरुद्वारा से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए जैन मंदिर को लेते हुए रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे आरएसईबी 220 केवी सब-स्टेशन को शामिल करते हुए लालसोट बाईपास रेल्वे ऑवरब्रिज के नीचे से उत्तर की ओर मुड़ते हुए नगरीय सीमा के सहारे-सहारे आदर्श विद्या मंदिर स्कूल को शामिल कर एनएच-21 पुराना एनएच-11 पर पहुंचकर पूर्व की ओर मुड़ते हुए दक्षिणी आबादी को लेते हुए पन्नू पेट्रोल पम्प को लेते हुए सैंथल मोड को छोड़ते हुए गुरुद्वारा पर पहुंचकर बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 05 में है।</p>
6.	<p>गांधी सर्किल पर स्पेक्ट्रा कलर स्टुडियो से शुरू होकर लालसोट रोड पर दक्षिण की ओर चलते हुए साहित्य संग्रहालय की दुकान को शामिल करते हुए देवी सहाय पांचाल की दुकान को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर घूमते हुए मानगंज रोड पर गोपीलाल कन्हैयालाल की दुकान को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की आबादी को लेते हुए मानगंज को क्रॉस कर पश्चिमी दरवाजे के अन्दर घुसकर मोदी ऑयल मील को लेते हुए शिव मंदिर को लेते हुए द्वारका छोकरवाडा वाले के मकान को लेते हुए शर्मा प्रेस को लेते हुए कैलाश सैनी के मकान पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुड़कर कटारिया भवन को छोड़ते हुए एकसन शॉरूम को लेते हुए वहां से पूर्व की ओर मुड़ते हुए फैशन पोइन्ट की दुकान को लेते हुए रेल्वे ऑवरब्रिज के नीचे की दक्षिणी आबादी में जैन धर्मशाला को लेते हुए मस्जिद को लेते हुए स्पेक्ट्रा कलर स्टुडियो तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 06 में है।</p>
7.	<p>लालसोट रोड पर गणेशदत्त कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर लक्ष्मणस्वरूप पेट्रोल पम्प को शामिल करते हुए बाबूलाल जैन पूर्व चैयरमेन के मकान को लेते हुए महेश जी शर्मा ईओ के मकान को शामिल करते हुए पोस्ट ऑफिस को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर मुड़ते हुए उत्तर की आबादी में ओमकारेश्वर मंदिर को लेते हुए खण्डेलवाल नर्सिंग होम को लेते हुए दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए श्रीनारायण बजाज के मकान को छोड़ते हुए बाबूलाल गुप्ता के मकान को लेते हुए यहां से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए शंकर सैनी के मकान को छोड़ते हुए बच्चूराम सैनी के कुएँ को छोड़ते हुए बजरंग मैदान को शामिल करते हुए रामोतार पटेल के</p>

	<p>मकान को लेते हुए शोभाराम के मकान को लेते हुए रामबाबू के मकान को लेते हुए बालाजी मेडिकल पर पहुंचकर दुर्गा मंदिर वाले रोड पर उत्तर की ओर मुड़ते हुए दुर्गा मंदिर को छोड़ते हुए चिरंजीलाल शर्मा के मकान तक पूर्व दिशा की आबादी को लेते हुए पूर्व की ओर नई मण्डी रोड पर मुड़कर भगवान सहाय सैनी बीईओ के मकान को शामिल करते हुए घनश्याम कैलाश के मकान को लेते हुए मानगंज को क्रॉस कर दक्षिण दिशा की आबादी को लेते हुए गणेशदत्त कॉम्प्लेक्स तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 07 में है।</p>
8.	<p>कृषि उपज मण्डी रोड पर जायसवाल चक्की से शुरू होकर सत्संग भवन की ओर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए सत्संग भवन को शामिल करते हुए गोविन्द सैनी के मकान को शामिल करते हुए दिनेश जायसवाल के भवन को छोड़ते हुए जितेन्द्र खण्डेलवाल के मकान को शामिल करते हुए पूर्व दिशा की आबादी को शामिल करते हुए केशव दत्त शर्मा के मकान को शामिल करते हुए पाण्ड्या हाउस को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर मुड़कर टीटी कॉलेज को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर मुड़कर जुगल शर्मा के मकान को लेते हुए रामजीलाल सैनी के मकान को छोड़ते हुए संता किड्स स्कूल को शामिल करते हुए झाला कृषि फार्म हाउस को शामिल करते हुए बूरा फैक्ट्री को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर मुड़कर कृषि मण्डी रोड पर चलते हुए कालू पटेल के मकान को शामिल करते हुए नगरीय सीमा तक पहुंचकर पूर्व की ओर मुड़कर केला फैक्ट्री को शामिल करते हुए लालसोट बाईपास पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुड़कर बाईपास चलते हुए रेल्वे लाईन तक पूर्व दिशा की समस्त आबादी को लेते हुए रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे पूर्व की ओर चलते हुए उत्तरी मण्डी गेट को क्रॉस कर दक्षिण में चलते हुए पूर्व की ओर मण्डी गेट क्रॉस कर मण्डी रोड पर चलते हुए कॉल डिपो को शामिल करते हुए निरंजन जिरोता वाले के मकान को छोड़ते हुए जायसवाल चक्की तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 08 में है।</p>
9.	<p>रेल्वे लाईन के पास व रेल्वे ऑवरब्रिज के नीचे कटारिया भवन से शुरू होकर दक्षिण दिशा में चलते हुए दुर्गा नर्सिंग होम को शामिल करते हुए नई मण्डी रोड को क्रॉस कर जगदीश लौहे वाले के मकान को शामिल करते हुए किरण नर्सिंग होम को शामिल करते हुए राजू पंजाबी के मकान को शामिल करते हुए हीरालाल हलवाई के मकान को छोड़ते हुए नाले के सहारे-सहारे पुलिया की ओर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए श्याम मंदिर को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुड़कर जायसवाल चक्की को छोड़ते हुए वहां से पश्चिम की ओर मुड़ते हुए उत्तरी आबादी को लेते हुए निरंजन जिरोता वाले के मकान को लेते हुए रामबाबू गुप्ता के मकान को लेते हुए बालाजी वर्क्स शॉप को शामिल करते हुए माचीवाल किराना स्टोर को शामिल करते हुए नई मण्डी गेट क्रॉस कर उत्तर की ओर चलते हुए उत्तरी गेट को क्रॉस कर रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे पूर्व की ओर चलते हुए अग्रवाल धर्मशाला को शामिल करते हुए आईस गोदाम को शामिल करते हुए कटारिया भवन तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 09 में है।</p>
10.	<p>दुर्गा मंदिर रोड पर पूर्विया कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर पूर्व की ओर चलते हुए डॉ० सत्यप्रकाश के मकान को लेते हुए डॉ० दिनेश पारीक के मकान को लेते हुए झूमर माली के मकान को लेते हुए बजरंग मैदान को छोड़ते हुए केके मीणा के मकान को लेते हुए बाबूलाल गुप्ता के मकान को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए कुर्ण को शामिल करते हुए बच्चूलाल</p>

	<p>सैनी के मकान को शामिल करते हुए संतोष के मकान को शामिल करते हुए पूर्व की तरफ चलते हुए शंकर सैनी के मकान को छोड़ते हुए जगदीश प्रसाद गुप्ता के मकान को शामिल करते हुए विष्णु दत्त खण्डेलवाल के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा में चलते हुए शान्ति निकेतन को छोड़ते हुए सलीम बाबा के खेत को शामिल करते हुए भगवती प्रसाद गुप्ता के मकान को शामिल करते हुए शंकर गुप्ता के मकान को शामिल करते हुए कृष्णावतार खण्डेलवाल के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए कजोड गुप्ता के मकान को शामिल कर अजय गुप्ता के मकान को लेते हुए हरीश शर्मा के मकान को छोड़ते हुए प्रभूजी बैंक वाले के मकान को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुड़कर पुरषोत्तम मोदी के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए रामबाबू गुप्ता के मकान को शामिल करते हुए बीएल धामाधी के मकान को शामिल करते हुए रामबाबू के मकान को छोड़ते हुए कल्याण सहाय सैनी के मकान को लेते हुए बालू सैनी के मकान को शामिल करते हुए अशोक विजयवर्गीय के मकान को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर चलते हुए प्रकाश लॉन को शामिल करते हुए पूर्विया कॉम्प्लैक्स तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 10 में है।</p>
11.	<p>मेवेश्वर शिव मंदिर को शामिल करते हुए जुगल शर्मा के मकान को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर मुड़कर चलते हुए टी.टी. कॉलेज को छोड़ते हुए पूर्वी दिशा की ओर मुड़कर ममता किराना स्टोर को शामिल करते हुए केशव दत्त शर्मा होम को छोड़ते हुए वहां से उत्तर दिशा की ओर मुड़कर रामबाबू शर्मा के मकान को शामिल करते हुए खाली प्लॉट को छोड़ते हुए अशोक गुप्ता के मकान को छोड़ते हुए कैलाश जाली की बाउन्ड्री को शामिल करते हुए जितेन्द्र खण्डेलवाल के मकान को छोड़ते हुए कल्लावास वाले के मकान को छोड़ते हुए श्याम बगीची को शामिल करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुड़कर नाले के सहारे सहारे चलते हुए राजू पंजाबी के मकान को छोड़ते हुए हीरालाल हलवाई के मकान को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुड़कर चलते हुए अशोक विजयवर्गीय के मकान को छोड़ते हुए वहां से पूर्व दिशा की ओर चलकर व्यास परिवार को शामिल करते हुए कल्याण सैनी के मकान को छोड़ते हुए वहां से दक्षिण दिशा की ओर चलकर गिर्राज जैमन के मकान को छोड़ते हुए वहां से पूर्व दिशा की ओर मुड़कर भगवान शर्मा अचलपुरा वाले के मकान को छोड़ते हुए वहां से उत्तर दिशा की ओर मुड़कर मूलचन्द सैनी के मकान को शामिल करते हुए पुरषोत्तम सैनी के मकान को छोड़ते हुए वहां से पूर्व दिशा की ओर मुड़कर संजय सैनी के मकान को शामिल करते हुए कृष्णावतार मोदी के मकान को छोड़ते हुए वहां से दक्षिण दिशा की तरफ मुड़कर गीता देवी शर्मा के मकान को छोड़ते हुए प्रभूदयाल शर्मा के मकान को छोड़ते हुए रामफूल सैनी के मकान को छोड़ते हुए प्रेमजी खण्डेलवाल के मकान को शामिल करते हुए अजय खण्डेलवाल के मकान को छोड़ते हुए अजय कुमार खण्डेलवाल के मकान को शामिल करते हुए पूर्व दिशा की ओर चलकर कैलाश खण्डेलवाल के मकान को छोड़ते हुए ललित जी बंसल के मकान को शामिल करते हुए वहां से उत्तर दिशा की ओर मुड़कर सुरेश गुप्ता के मकान को शामिल करते हुए मुरारीलाल गुप्ता के मकान को लेते हुए पूर्व की ओर मुड़कर रवीन्द्र खण्डेलवाल के मकान को लेते हुए दक्षिण दिशा की समस्त आबादी को लेते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुड़ते हुए सतीष गुप्ता के मकान को छोड़ते हुए प्रेम सैनी के मकान को लेते हुए</p>

	<p>भीखनारायण जी सैनी के मकान को शामिल करते हुए सफी कसाई के मकान को छोड़ते हुए पूर्वी दिशा की ओर मुड़कर भौंरी देवी के खेत को शामिल करते हुए विनीत कुमार नाथूलाल गुप्ता के मकान को शामिल करते हुए वहां से दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर चलते हुए रहीस हाजी के मकान को छोड़ते हुए योगेश नारायण के मकान को लेते हुए सुरेश जगदीश महावर के मकान को लेते हुए कैलाश महावर के मकान को छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ चलते हुए कल्याण सहाय महावर के मकान को शामिल करते हुए हुसैन बक्स के मकान को छोड़ते हुए उत्तरी आबादी को शामिल करते हुए खाली बाउन्ड्री वाले प्लॉट को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुए प्रहलाद हरिजन के मकान को छोड़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर सीसी रोड पर चलते हुए उत्तरी आबादी में खाली खेत को लेते हुए मेवेश्वर शिव मंदिर तक पहुंचकर उसके बीच तक की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 11 में है।</p>
12.	<p>बाबाजी की छावनी रोड पर घनश्याम प्रजापत के मकान से शुरू होकर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए गोपाल कुम्हार के बाड़े को छोड़ते हुए जगन कुम्हार के मकान को शामिल करते हुए कैलाश महावर के मकान को छोड़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए दयाराम महावर के मकान को लेते हुए कल्याण सहाय महावर के मकान को छोड़ते हुए दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा में मुड़कर प्रहलाद हरिजन के मकान को शामिल करते हुए सीसी रोड पर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए मेवेश्वर शिव मंदिर को छोड़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए रामजीलाल लाईनमैन के मकान को शामिल करते हुए प्रभात सैनी हलवाई के मकान को शामिल करते हुए रामधन मीणा के मकान को शामिल करते हुए मण्डी रोड से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए बूरा फैक्ट्री को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए रामकुण्ड ढाणी को शामिल करते हुए मावरिया की ढाणी को शामिल करते हुए पप्पू सैनी ड्राईवर के मकान, मामल चन्द लाईनमैन के मकान को शामिल करते हुए पांच दुकानों को छोड़ते हुए पूर्व दिशा की ओर बाबाजी की छावनी रोड पर चलते हुए नाथूलाल प्रजापत के मकान को शामिल करते हुए चौधरी लॉन को छोड़ते हुए अजीज खां लुहार के मकान को शामिल करते हुए घनश्याम प्रजापत के मकान पर पहुंचकर समस्त बीच की आबादी वार्ड नम्बर 12 में है।</p>
13.	<p>लालसोट रोड पर मुख्य पोस्ट ऑफिस से शुरू होकर दक्षिण की ओर चलते हुए नगर परिषद भवन को शामिल करते हुए चौधरी धर्मशाला को शामिल करते हुए बैंक ऑफ इण्डिया को शामिल करते हुए कालीचरण शर्मा के मकान को शामिल करते हुए मदरसे को छोड़ते हुए पश्चिम की ओर मुड़ते हुए हाजी फकीर मौहम्मद के मकान को लेते हुए खन्ना पप्पू के मकान को शामिल करते हुए एवीएम स्कूल पर पहुंचकर सत्तार नागौरी के मकान को छोड़ते हुए जलाउद्दीन खां के मकान को छोड़ते हुए सलीम बाबा के खेत को छोड़ते हुए डॉक्टर शिवदयाल के मकान को लेते हुए गिन्नी पंजाबी के मकान को लेते हुए कैलाश सैनी बडाय मास्टर के मकान को शामिल करते हुए वहां से उत्तर की ओर मुड़ते हुए शंकर सैनी के मकान को शामिल करते हुए मोहनलाल व्यास के मकान को शामिल करते हुए उत्तर की तरफ चलते हुए श्रीनारायण बजाज के मकान को शामिल करते हुए खण्डेलवाल नर्सिंग होम को छोड़ते हुए वहां से पूर्व की ओर मुड़ते हुए खादी भण्डार को शामिल करते हुए पोस्ट</p>

	ऑफिस तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 13 में है।
14.	लालसोट रोड पर मदरसे से शुरू होकर दक्षिण की ओर लालसोट रोड पर चलते हुए नूर खां मीर खां के मकान को शामिल करते हुए नागौरी पुलिया पर नूर मंजिल को शामिल करते हुए वधावन डेन्टल क्लिनिक को शामिल करते हुए रामस्वरूप खटीक की दुकान को शामिल करते हुए वहां से सिटी पावर हाउस रोड पर उतरकर पुरानी ईदगाह को शामिल करते हुए जोबनेर माता मंदिर को छोड़कर मंदिर के पीछे से सामुदायिक भवन को छोड़ते हुए भैया भाई पूर्व चैयरमेन के मकान को शामिल करते हुए मुंशी खान के मकान को शामिल करते हुए उत्तर की ओर चलते हुए जलाल खां के मकान को शामिल करते हुए नाले-नाले चलते हुए सत्तार नागौरी के मकान को शामिल करते हुए सनवर खां पार्शद के मकान को शामिल करते हुए बुन्दु खां के मकान को शामिल करते हुए मदरसा तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 14 में है।
15.	बाबाजी की छावनी रोड पर जोबनेर माता के मंदिर से शुरू होकर छावनी रोड पर चलते हुए भगवान सहाय सैनी आरएसईबी वाले के मकान को लेते हुए लल्लू सैनी के मकान को लेते हुए बाबाजी की छावनी बावडी को शामिल करते हुए रामप्रताप के कुम्हार के मकान को शामिल करते हुए घनश्याम प्रजापत के मकान को छोड़ते हुए वहां से उत्तर की ओर मुड़ते हुए कानाराम महावर के मकान को लेते हुए रमेश महावर के मकान को लेते हुए रहीस हाजी के मकान को शामिल करते हुए रामधन महावर के मकान को शामिल करते हुए सलीम बाबा के खेत को छोड़ते हुए अब्दुल रसीद टेलिफोन वाले के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर मुड़ते हुए मुंशी खां के मकान को छोड़ते हुए नीमडी वाले बाबा की दरगाह को शामिल करते हुए पुरानी ईदगाह के पीछे वाले रास्ते में सामुदायिक भवन को शामिल करते हुए जोबनेर माता के मंदिर तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 15 में है।
16.	गुप्तेश्वर रोड पर त्रिवेणीश्याम पटवारी के मकान से शुरू होकर गुप्तेश्वर रोड पर पश्चिम की ओर चलते हुए अरावली होटल को शामिल करते हुए हंसराज गुर्जर पार्शद के मकान को लेते हुए किंग्स पैराडाईज लोन को शामिल करते हुए राम मंदिर को शामिल करते हुए लालसोट बाईपास पर नगरीय सीमा तक पहुंचकर नगरीय सीमा के सहारे-सहारे उत्तर दिशा की ओर चलते हुए आईडीएसएमटी योजना को शामिल करते हुए कृषि मण्डी रोड पर नगरीय सीमा सहारे-सहारे उत्तर की ओर चलते हुए छावनी रोड तक पहुंचकर केला फैक्ट्री को छोड़ते हुए छावनी रोड पर दक्षिण की ओर चलते हुए दुबल्या की ढाणी को शामिल करते हुए बाबूलाल निर्जर के मकान को शामिल करते हुए प्रभूदयाल सैनी के मकान को लेते हुए दक्षिण की आबादी को लेते हुए प्रभूदयाल के मकान से दक्षिण की ओर मुड़कर महाराज सिंह पटवारी के मकान को छोड़ते हुए हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट नम्बर 3/36 को शामिल करते हुए दीगवाल भवन को शामिल करते हुए पूर्व की ओर मुड़ते हुए महावरी प्रोविजनल स्टोर को शामिल करते हुए कार्यालय पूर्व एमएलए के मकान को छोड़ते हुए वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर दिनेश शर्मा सचिव के मकान को लेते हुए त्रिवेणीश्याम पटवारी तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 16 में है।
17.	लालसोट रोड पर वेद टापरिया की दुकान से शुरू होकर लालसोट रोड पर चलते हुए आनन्द

	<p>शर्मा स्कूल को शामिल करते हुए गौतम फोटो स्टेट को छोड़ते हुए मैला मैदान के रोड पर चलते हुए मैला मैदान को शामिल करते हुए बारादरी को शामिल करते हुए आईस फैक्ट्री को शामिल करते हुए कस्तूरबा हॉस्टल को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की समस्त आबादी को लेते हुए नारायण सैनी के मकान को छोड़ते हुए हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट नम्बर 1/76 को छोड़ते हुए पूर्व एमएलए कार्यालय के भवन को शामिल करते हुए सब्बरवाल भवन को शामिल करते हुए हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट नम्बर 3/31 को शामिल करते हुए वहां से उत्तर की ओर मुड़ते हुए पूर्वी आबादी में कामेरी देवी मीना के मकान को शामिल करते हुए महाराज सिंह पटवारी के मकान को शामिल करते हुए बिवाइ सैनी के मकान को शामिल करते हुए वहां से पूर्व की ओर छावनी रोड पर चलते हुए आलम के मकान को शामिल करते हुए चौधरी हाउस को लेते हुए मोहन कुम्हार के मकान को लेते हुए सरेला कुम्हार के मकान को लेते हुए गुरावा की दुकान को शामिल करते हुए निर्मल सैनी पार्श्व के मकान को शामिल करते हुए सिटी पावर हाउस को शामिल करते हुए मन्नु खां के टाल को शामिल करते हुए वैद टापरिया की दुकान तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 17 में है।</p>
18.	<p>लालसोट रोड पर गौतम फोटो स्टेट की दुकान से प्रारम्भ होकर लालसोट रोड पर चलते हुए सुरेश की हॉटल को शामिल करते हुए वहां से पश्चिम की ओर गुप्तेश्वर रोड पर चलते हुए रामेश्वर बंशीवाल के मकान को शामिल करते हुए मूर्ती वाले के मकान को शामिल करते हुए पण्डित कैलाश शर्मा के मकान को शामिल करते हुए घनश्याम शर्मा के मकान को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की समस्त आबादी को लेते हुए उत्तर की ओर मुड़कर निर्मल बडेरा के मकान को शामिल करते हुए खेमराज जी मीना एक्सईएन के मकान को छोड़ते हुए वहां से पूर्व की ओर मुड़कर शीतल चौबे के मकान को शामिल करते हुए मिड्डन लाल एडवोकेट के मकान को शामिल करते हुए रामगोपाल जांगिड के मकान को शामिल करते हुए पूनम मैरिज लॉन को शामिल करते हुए डॉ० संतोष वाष्णेय हॉस्पिटल को शामिल करते हुए लालसोट रोड पर गौतम फोटोस्टेट दुकान तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 18 में है।</p>
19.	<p>गुप्तेश्वर रोड पर यशोधरा लॉन के सामने करण सिंह राठौड के मकान से शुरू होकर गुप्तेश्वर रोड पर पश्चिम की ओर चलते हुए बिचलेश्वर महादेव मंदिर को लेते हुए सुरेश शर्मा आरएसईबी वाले के मकान को शामिल करते हुए वहां से उत्तर की ओर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सामुदायिक भवन को शामिल करते हुए बजरंग लाल एलआईसी वाले के मकान को शामिल करते हुए पूर्व एमएलए कार्यालय भवन को छोड़ते हुए हाउसिंग बोर्ड की दुकान को शामिल करते हुए हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट नम्बर 1/76 को शामिल करते हुए नारायण सैनी के मकान तक पूर्व दिशा की समस्त आबादी को लेते हुए नारायण सैनी के मकान से पूर्व की ओर मुड़कर खेमराज जी मीना के मकान तक दक्षिण दिशा की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुए खेमराज जी मीना के मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए विनायक प्रोविजनल स्टोर को शामिल करते हुए बाबा हॉटल को शामिल करते हुए गौरीशंकर तहसीलदार के मकान को शामिल करते हुए करणसिंह राठौड के मकान तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 19 में है।</p>
20.	<p>गुप्तेश्वर रोड पर जगदीश जी सिद्ध के मकान से शुरू होकर लालसोट रोड पर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए कब्रिस्तान की भूमि को लेते हुए दरगाह शाह जमाब बाबा को शामिल</p>

	<p>करते हुए खादी बाग को शामिल करते हुए गेटोलाव रोड पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए वृंदावन वाटिका को शामिल करते हुए भगवान सहाय सैनी के मकान को छोड़ते हुए गेटोलाव रोड पर चलते हुए नगरीय सीमा तक पहुंचकर स्वास्तिक स्कीम को शामिल करते हुए नगरीय सीमा के सहारे-सहारे पूर्व की ओर मुड़ते हुए महिला कॉलेज को शामिल करते हुए गुप्तेश्वर तालाब को शामिल करते हुए नगरीय सीमा के सहारे-सहारे गुप्तेश्वर रोड तक पहुंचकर पूर्व की ओर मुड़कर महिला पुलिस थाना को शामिल करते हुए राम मंदिर को छोड़ते हुए गुप्तेश्वर रोड पर यशोधरा लोन का शामिल करते हुए जगदीश जी सिद्ध के मकान तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 20 में है।</p>
21.	<p>लालसोट रोड एनएच-11ए पर अवधेश एडवोकेट के मकान से शुरू होकर महेश बादल की दुकानों को शामिल करते हुए रामधन शर्मा के मकान को शामिल करते हुए व्यास भवन को छोड़ते हुए बिन्नु माली के मकान को शामिल करते हुए पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुए सेंटमेरी स्कूल को शामिल करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुड़कर रामसिंह गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए शिवा मार्बल को शामिल करते हुए रामकरण मीणा के मकान को छोड़ते हुए रामप्रताप सैनी के मकान को शामिल करते हुए नगरीय सीमा पर पहुंचकर सीमा के सहारे-सहारे दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर नई ईदगाह को शामिल करते हुए रैगर हॉस्टल को शामिल करते हुए व बैरवा हॉस्टल को शामिल करते हुए उत्तर की तरफ मुड़कर कृष्णा हॉस्पिटल को शामिल करते हुए लालसोट रोड को क्रॉस कर पश्चिम की ओर मुड़कर नगरीय सीमा के सहारे-सहारे उत्तर की ओर मुड़कर पूर्वी आबादी को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी को लेते हुए उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी को शामिल करते हुए स्वास्तिक स्कीम को छोड़ते हुए उत्तरी दिशा में गेटोलाव रोड पर चलकर भगवान सहाय सैनी के मकान को शामिल करते हुए वृंदावन वाटिका को छोड़ते हुए लाला लाजपत मार्केट को शामिल करते हुए रमेश मीणा पार्षद के मकान को शामिल करते हुए अवधेश एडवोकेट के मकान तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 21 में है।</p>
22.	<p>संस्कृत कॉलेज से शुरू होकर पूर्व की ओर चलते हुए वाटर वर्क्स कार्यालय को शामिल करते हुए बनैदास की बावडी को शामिल करते हुए मूलचन्द कीर के मकान को शामिल करते हुए वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर हनुमान गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए बोहरा की चक्की को शामिल करते हुए गौशाला को शामिल करते हुए पूर्व की ओर मुड़कर नगरीय सीमा पर पहुंचकर नगरीय सीमा के सहारे-सहारे दक्षिण की ओर मुड़ते हुए पश्चिमी की तरफ मुड़कर रामेत मीणा के मकान को शामिल करते हुए नवीन चन्देल के मकान को शामिल करते हुए सुरेश सैनी पीडबल्यूडी वाले के मकान को शामिल करते हुए कमलेश डिपार्टमेंटल स्टोर को शामिल करते हुए नेशनल इन्ट्रि्यूट फायर एण्ड सैफ्टी कॉलेज को छोड़ते हुए सेंटमेरी स्कूल के सामने लालसोट रोड एनएच-11ए पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए आदर्श वाणिज्यिक योजना को शामिल करते हुए व्यास सदन को शामिल करते हुए रामकरण जोशी हॉस्पिटल को शामिल करते हुए डॉ० कॉलोनी को शामिल करते हुए सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल को शामिल करते हुए कृषि भवन को शामिल करते हुए संस्कृत कॉलेज तक पहुंचकर बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 22 में है।</p>

23.	<p>डगलाव रोड पर नगरीय सीमा से शुरू होकर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए रणजीता माली के मकान को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर चलते हुए शक्ति सिंह जी के मकान को शामिल करते हुए गौशाला को छोड़ते हुए पूर्व दिशा की आबादी को शामिल करते हुए बोहरा चक्की को छोड़ते हुए पश्चिम दिशा में चलते हुए सीताराम गुर्जर के मकान को लेते हुए मूलचन्द सैनी के मकान को छोड़ते हुए हनुमान गुर्जर एडवोकेट के मकान को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुड़कर देवनारायण गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए ओमप्रकाश सिलावट के मकान को छोड़ते हुए पुनः दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए कैलाश गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए नाथूलाल सैनी के मकान को छोड़ते हुए रामकिशोर सैनी के मकान को लेते हुए बापीवाल धर्मशाला को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की तरफ मुड़कर कालूराम महावर के मकान को शामिल करते हुए घनश्याम टोपिया बापीवाल के बाड़े को शामिल करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुड़कर रामकिशन ठेकेदार के मकान को शामिल करते हुए रामस्वरूप बैरवा के मकान को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर चलकर अशोक बंशीवाल के मकान को शामिल करते हुए संतोष बंशीवाल के मकान को शामिल करते हुए अनिल किराना स्टोर को छोड़ते हुए पूर्व दिशा की ओर मुड़कर छीतरमल के मकान को छोड़ते हुए हजारी लाल के मकान को शामिल करते हुए मंदिर को शामिल करते हुए भीला की बावडी को शामिल करते हुए नगरीय सीमा के सहारे-सहारे पहाड की तलहटी होते हुए सुखराम गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए डगलाव रोड तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 23 में है।</p>
24.	<p>नगरीय सीमा पर भीला की बावडी से शुरू होकर रामकिशोर के मकान को लेते हुए पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए छीतरमल के मकान को लेते हुए अनिल किराना स्टोर को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर चलते हुए रामस्वरूप बैरवा के मकान को शामिल करते हुए बापीवाल भवन को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर मुड़कर कजोड बंशीवाल के मकान को शामिल करते हुए दयालचन्द के मकान को शामिल करते हुए अणतराम बापीवाल के खण्डर मकान को छोड़ते हुए खेरातीलाल के मकान को शामिल करते हुए पूर्वी दिशा की ओर मुड़कर ग्यारसीलाल महावर के मकान को लेते हुए नाथूराम महावर के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर भौमिया जी के मंदिर के पीछे गोपाल महावर के मकान को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुड़कर नारायण महावर के मकान को छोड़ते हुए रामजीलाल के मकान को शामिल करते हुए जगदीश प्रसाद के मकान को शामिल करते हुए मनोहर जी मास्टर के मकान को छोड़ते हुए पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए शिव मंदिर को शामिल करते हुए लालचन्द कण्डेरा के मकान को शामिल करते हुए मुस्लिम मदरसे को शामिल करते हुए शमसाद हाउस को शामिल करते हुए नगरीय सीमा पर पहुंचकर दक्षिण दिशा में मुड़कर हमीद खां जमादार के मकान को शामिल करते हुए पूर्व की ओर मुड़कर पानी की टंकी से दक्षिण दिशा में मुड़कर नगरीय सीमा के सहारे-सहारे अजीज खां घडीसाज के मकान को शामिल करते हुए पहाड की तलहटी नगरीय सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए भीला की बावडी तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 24 में है।</p>
25.	<p>झालरा का बास में राजाराम गुर्जर के मकान से शुरू होकर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए</p>

	<p>रेवडी वाले बालाजी के मंदिर को लेते हुए सतीष शर्मा के मकान को लेते हुए कृष्णावतार के मकान को छोड़ते हुए वैजनाथ के मकान को शामिल करते हुये गोपाल व्यास के मकान को लेते हुए झगडेश्वर मंदिर को शामिल करते हुए प्रभूनारायण सोनी के मकान को शामिल करते हुए राधेश्याम सोनी के मकान को शामिल करते हुए पूर्वी दिशा की आबादी को शामिल करते हुए उत्तरी-पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए माणक चौक पर आगर माणक चन्द जैन की दुकान को शामिल करते हुये पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए माणक चन्द जैन के मकान को लेते हुए सुधीर जैन एडवोकेट के मकान को लेते हुये चौधरी कॉलोनी में छीतर मल के मकान को शामिल करते हुये किशन नाई के मकान को शामिल करते हुये चौधरी के मकान के कोने पर पहुंचकर रघुनाथ जी के मन्दिर की ओर चलते हुये दक्षिण आबादी लेते हुये मन्दिर चौक पर पहुंचकर राधेश्याम गुर के मकान को शामिल कर ढलान से नीचे उतर कर दक्षिण आबादी चौधरी की हवेली लेते हुये बेसिक स्कूल पर पहुंच कर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए पूर्वी आबादी को लेते हुए ओमप्रकाश शर्मा के मकान को शामिल करते हुए हमीद खां बैंक वाले के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा की ओर मुडकर भौमिया जी मंदिर को छोड़ते हुए मनोहर मास्टर के मकान को शामिल करते हुए राजकुमार शर्मा के मकान को शामिल करते हुए नारायण महावर के मकान को शामिल करते हुए बिरदीचन्द टेकडी वाले के मकान को शामिल करते हुए अणतराम बापीवाल के खण्डर मकान को शामिल करते हुए कजोड बंशीवाल के मकान को छोड़ते हुए बापीवाल के बाडे को शामिल करते हुए महेन्द्र पार्षद के मकान को शामिल करते हुए छीतर सैनी के मकान को लेते हुए पश्चिम दिशा की ओर हनुमान गुर्जर के मकान को छोड़ते हुए झालरा के बास में राजाराम गुर्जर के मकान तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 25 में है।</p>
26.	<p>माणक चौक बाजार रमेश ब्रेड वाले की दुकान से शुरू होते हुए उत्तर की ओर चलते हुए पूर्व दिशा की आबादी को लेते हुए पुराना वाचनालय भवन को शामिल करते हुए बंटी समोसे वाली की दुकान को शामिल करते हुए नरसिंह जी के मंदिर को शामिल करते हुए पुराने अनाज बाजार रोड पर उत्तर दिशा में चलते हुए पूर्वी आबादी को लेते हुए रामकरण जी चांदराना वाले की दुकान को शामिल करते हुए वहां से पूर्व की ओर मुडकर रामजीलाल माचीवाल के मकान को शामिल करते हुए भौमिया जी स्कूल को शामिल करते हुए गिराज गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए छीतर गुर्जर के मकान को छोड़ते हुए बालाजी के मंदिर को शामिल करते हुए महिपाल के मकान को शामिल करते हुए रामस्वरूप मास्टर/हरिजन के मकान को शामिल करते हुए जियालाल हरिजन के मकान को छोड़ते हुए नगरीय सीमा पर पहुंचकर सीमा के सहारे-सहारे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए पहाड की उत्तरी-पश्चिमी बुर्ज पर पहुंचकर सूर्यनारायण मंदिर को छोड़ते हुए पश्चिम दिशा में चलते हुए बेसिक स्कूल को छोड़ते हुए सहारा के कुएँ को शामिल करते हुए हमिद खां बैंक वाले के मकान को छोड़ते हुए अरविन्द मिश्रा के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा में घूमकर रघुनाथ जी मंदिर को शामिल करते हुए चौकडायतों की हवेली को शामिल करते हुए ईशान चन्द जी के मकान को शामिल करते हुए गुरावो के मकान को शामिल करते हुए बाबूलाल पंजाबी के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर चलते हुए उत्तरी आबादी को शामिल करते हुए जैन हवेली को शामिल करते हुए रमेश ब्रेड वाले की दुकान तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर</p>

	26 में है।
27.	<p>पुराना अनाज बाजार स्थित पीपली के पेड के नीचे से रामजीलाल माचीवाल के मकान को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए सुंदारों के मंदिर को छोड़ते हुए रामकरण तिवाडी के मकान को शामिल करते हुए बंशीधर पूर्विया की दुकान को शामिल करते हुए कल्याणी सैनी व श्याम सैनी के मकान को शामिल लल्लू सैनी के मकान को शामिल करते हुये लोहडीराम माली के मकान को शामिल करते हुये सीधे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए जयनारायण महावर के मकान को शामिल करते हुए पूरण रैगर के मकान को शामिल करते हुए भैरूजी के मंदिर को छोड़ते हुए भैरूजी की ढलान उतरते हुए गुलाब रैगर के मकान को छोड़ते हुए रामचन्द्र रैगर के मकान को शामिल करते हुए कुरें को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए सुखराम रैगर के मकान को छोड़ते हुए जगदीश रैगर के मकान को शामिल करते हुए हनुमान रैगर के मकान को शामिल करते हुए हरचन्दा रैगर के मकान को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए कृष्ण राजोरिया के मकान को शामिल करते हुए कब्रिस्तान को शामिल करते हुए हीरालाल वर्मा के मकान को छोड़ते हुए धर्मा चक्की को छोड़ते हुए मोहन महावर जेईएन के मकान को छोड़ते हुए पूर्वी-दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते हुए कमरुद्दीन शाह के मकान को शामिल करते हुए बोदन कुम्हार को शामिल करते हुए माता माई के मंदिर को शामिल करते हुए लक्ष्मा गुर्जरी के मकान को शामिल करते हुए रोड क्रांस कर पूर्व दिशा की ओर मुड़ते हुए कसाणा जनरल स्टोर को शामिल करते हुए रघुनन्दन गुप्ता के मकान को छोड़ते हुए रामधन गुर्जर के मकान को लेते हुए प्रभूजी मुनीम के मकान को लेते हुए उत्तर की ओर घूमते हुए बंशी गुर्जर व मोहन गुर्जर के मकान को लेते हुए भैरूजी मंदिर को शामिल करते हुए नवकिशोर महावर के मकान को लेते हुए नाथूलाल मेंबर की दुकानों को छोड़ते हुए खेरातीलाल महावर के मकान को शामिल करते हुए उदयभान गुर्जर पूर्व पार्श्व के मकान को शामिल करते हुए एवं उनके बाडे को छोड़ते हुए जगदीश जी शर्मा (रोडवेज) के मकान को शामिल करते हुए करण प्रकाश शर्मा के मकान को शामिल करते हुए पंचकुईया को शामिल करते हुए बावडी को शामिल करते हुए गोपाल जी के मंदिर को छोड़ते हुए पंचायत चौक को छोड़ते हुए गोला परिवार को शामिल करते हुए नगरीय सीमा पर पहुंचकर सीमा के सहारे-सहारे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए जियालाल हरिजन के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए विश्वप्रिय के मकान को शामिल करते हुए गुलाराम के मकान को शामिल करते हुए नारायण कोली के मकान को शामिल करते हुए छीतर गुर्जर को शामिल करते हुए गिराज गुर्जर को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए मोती गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए रवि नागर के मकान को शामिल करते हुए पुराना अनाज बाजार स्थित पीपली के पेड तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 27 में है।</p>
28.	<p>नगर परिषद दौसा द्वारा संचालित वाचनालय भवन से शुरू होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए मुकेश सैन के मकान को शामिल करते हुए पुराने मुर्दाघर को शामिल करते हुए रतन जोशी के मकान को शामिल करते हुए एमके ज्वैलर्स को छोड़ते हुए पूर्वी आबादी को शामिल करते हुए रमजानी के मकान को शामिल करते हुए लाला मेडिकल व पुराने हॉस्पिटल को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए अब्दुल लतीफ के मकान को शामिल करते हुए</p>

	<p>हरिनारायण प्रजापत के मकान को शामिल करते हुए केनाराम महावर के मकान को शामिल करते हुए दक्षिणी-पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए सत्यनारायण कीर के मकान को शामिल करते हुए उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए कल्लू खां के मकान को छोड़ते हुए हरिनारायण के मकान को शामिल करते हुए प्रकाश मुनीम के मकान को शामिल करते हुए जहूर मौहम्मद के मकान को छोड़ते हुए शिव मंदिर को शामिल करते हुए दक्षिणी-पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए सुरेश झाला के मकान को शामिल करते हुए रमेश शर्मा के मकान को छोड़ते हुए मोहन व्यास के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए लक्ष्मणस्वरूप शर्मा के मकान को शामिल करते हुए पूनम ब्यूटी पार्लर को शामिल करते हुए दक्षिणी-पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए बाबूलाल महावर के मकान को शामिल करते हुए धर्मपाल महावर के मकान को छोड़ते व मूलचन्द महावर के मकान को छोड़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए घासी सैनी के मकान को शामिल करते हुए गिराज टेंट हाउस को शामिल करते हुए नन्दू कीर के मकान को शामिल करते हुए राधाकिशन के मंदिर को शामिल करते हुए वाचनालय भवन तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 28 में है।</p>
29.	<p>लालसोट रोड एनएच-11ए पर पुलिस कन्ट्रोल रूम से शुरू होकर उत्तर की ओर चलते हुए शिक्षा संकुल को शामिल करते हुए पटवार भवन को शामिल करते हुए कालू सैनी के मकान को शामिल करते हुए बरकत स्टेच्यू पर पहुंचकर पुराने शहर के रास्ते पर मुडकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए घासी माली के मकान व दुकान को शामिल करते हुए वक्फ बोर्ड की दुकानों को शामिल करते हुए पीलू वाले बालाजी के मंदिर को छोड़ते हुए चिरंजीलाल दुशाद के मकान को शामिल करते हुए पूर्वी-दक्षिणी घूमते हुए ठाकुर जी के मंदिर को शामिल करते हुए राजेन्द्र हाउस को शामिल करते हुए डॉ० भवानी शंकर के मकान को छोड़ते हुए नूर मौहम्मद के मकान को छोड़ते हुए जहूर मौहम्मद के मकान को शामिल करते हुए वहां से दक्षिणी-पूर्वी दिशा की ओर मुडते हुए अभयशंकर वकील के मकान को शामिल करते हुए राधेश्याम ढिवठ्या के मकान को शामिल करते हुए मुन्ना महावर के मकान को छोड़ते हुए जमाल खां नूर खां के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर मुडकर कानाराम महावर के मकान को छोड़ते हुए रमेश मीना पूर्व पार्श्व के मकान को शामिल करते हुए पुराने हॉस्पिटल को शामिल करते हुए पूर्व की ओर मुडकर लाला मेडिकल को शामिल करते हुए पुनः दक्षिण दिशा की ओर मुडकर एमके ज्वैलर्स को शामिल करते हुए लतीफ भटियारा के मकान को छोड़ते हुए पानी की टंकी को शामिल करते हुए रतने जोशी के मकान को छोड़ते हुए रामोतार खुंटेटा के मकान को शामिल करते हुए अवधेश एडवोकेट के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर मुडकर कृषि सभा भवन को शामिल करते हुए लल्लू जी गुरूजी के मकान को शामिल करते हुए पुलिस कन्ट्रोल रूम तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 29 में है।</p>
30.	<p>गांधी चौक दौसा स्थित वीरेन्द्र पार्श्व (उपसभापति) के कार्यालय से शुरू होकर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए बंटी समोसे वाले की दुकान को छोड़ते हुए पोस्ट ऑफिस को शामिल करते हुए सरदार बुकडिपो की दुकान को शामिल करते हुए चांदीवाला भवन को शामिल करते हुए प्रभूनारायण सोनी के मकान को शामिल करते हुए झगडेश्वर मंदिर को छोड़ते हुए कृष्णावतार के मकान को छोड़ते हुए सतीष शर्मा के मकान को छोड़ते हुए मूलचन्द शर्मा के मकान को</p>

	<p>लेते हुए डालचन्द सैनी के मकान को शामिल करते हुए रेवडी वाले बालाजी मंदिर को छोड़ते हुए श्रवण मंशी की दुकान को शामिल करते हुए राजाराम गुर्जर के मकान को छोड़ते हुए पूर्वी-उत्तरी दिशा की ओर मुड़कर झालरा के बास में चलते हुए हरिनारायण सैनी के मकान को शामिल करते हुए रामप्रताप मुंशी के मकान को शामिल करते हुए धर्मपाल महावर के मकान को शामिल करते हुए कन्ना चौराहे पर नाथूलाल महावर के मकान को छोड़ते हुए पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए शम्भू कीर की दुकान को शामिल करते हुए राजेन्द्र सैन के मकान को शामिल करते हुए पूनम ब्यूटी पार्लर के मकान को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए लक्ष्मणस्वरूप के मकान को छोड़ते हुए गोपालकृष्ण व्यास सचिव के मकान को शामिल करते हुए पश्चिमी-उत्तरी दिशा की ओर बढ़ते हुए राममनोहर व्यास के मकान को छोड़ते हुए रमेश जी शर्मा के मकान को शामिल करते हुए शिव मंदिर को शामिल करते हुए प्रकाश मुंशी के मकान को छोड़ते हुए नूर मौहम्मद के मकान को लेते हुए डॉ० भवानीशंकर के मकान को शामिल करते हुए रेला भवन को शामिल करते हुए शम्भूदयाल गुप्ता के मकान को छोड़ते हुए उत्तरी-पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए राजेन्द्र मेडिकल को छोड़ते हुए कैलाश रेला के मकान को लेते हुए हनीफ खां के मकान को लेते हुए इन्दिरा पब्लिक स्कूल को छोड़ते हुए नला मौहल्ले के रास्ते में उत्तरी-पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए गंगावत के मकान को शामिल करते हुए पुरषोत्तम छीपा के मकान को शामिल करते हुए गंगा माता मंदिर को शामिल करते हुए कल्याण सहाय पोस्ट मास्टर के मकान को शामिल करते हुए वहां से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हरिहर मंदिर को छोड़ते हुए विन्नु बडेरा के मकान को शामिल करते हुए गांधी चौक में पहुंचकर वीरेन्द्र पार्षद (उपसभापति) के कार्यालय तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 30 में है।</p>
31.	<p>बरकत स्टेच्यू महादेव मंदिर से शुरू होकर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए स्पार्क इलैक्ट्रिकल की दुकान को शामिल करते हुए गरीब नवाज होटल को छोड़ते हुए वहां से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए इकराम टेलर की दुकान को शामिल करते हुए नथ्यन खां के मकान को छोड़ते हुए सेंट आफिज स्कूल को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा में घूमकर जगदीश कुम्हार के मकान को शामिल करते हुए सत्यनारायण के मकान को शामिल करते हुए वधावन की दुकान को छोड़ते हुए इमली वाले मंदिर को शामिल करते हुए राजेन्द्र मोदी के मकान को शामिल करते हुए बाबूलाल के मकान को छोड़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए रैला भवन को छोड़ते हुए शम्भू दयाल गुप्ता के मकान को लेते हुए दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पीलू वाले बालाजी को शामिल करते हुए गणेश माली के मकान को शामिल करते हुए महादेव मंदिर तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 31 में है।</p>
32.	<p>लालसोट रोड पर गरीब नवाज होटल से शुरू होकर उत्तर की ओर चलते हुए बाबू खां ठेकेदार के मकान को शामिल करते हुए लड्डू पान वाले की दुकान को शामिल करते हुए दौसा टेंट हाउस के मकान को छोड़ते हुए पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए सैनी भवन को शामिल करते हुए सदर चौक में हाजी अब्दुल गफ्फार नाकेदार के मकान को छोड़ते हुए पश्चिम-दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए सफीक टायर वाले के मकान को छोड़ते हुए रमजानी फय्याज के मकान को लेते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए रहीम भाई के मकान को छोड़ते हुए फकीर मौहम्मद के मकान को छोड़ते हुए हाजी इलियास भाई की शटर वाली दुकान को</p>

	छोड़ते हुए चांद किराना स्टोर को छोड़ते हुए नथथन खां के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए हनीस कम्पाउंडर के मकान को शामिल करते हुए गरीब नवाज होटल तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 32 में है।
33.	नला मौहल्ला मंदिर को शामिल करते हुए भगवान सहाय रैगर के मकान को शामिल करते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हुए मनोहर लाल रैगर के मकान को शामिल करते हुए रामदेव जी मंदिर को शामिल करते हुए पांचूराम रैगर के मकान कच्चाघर को शामिल करते हुए आगे बढ़ते हुए जगदीश रैगर के मकान को शामिल करते हुए रैगर मौहल्ला में रोड पर गुलाब रैगर के मकान से पूर्व की ओर बढ़ते हुए भैरूजी की ढाल में दयाला रैगर को शामिल करते हुए भैरू मंदिर को शामिल करते हुए रामधन रैगर के मकान को लेते हुए पूर्व की ओर चलते हुए राधेश्याम छिपा (मास्टर) के मकान को शामिल करते हुए सुनारों के मंदिर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए भडभुंजाओं को शामिल करते हुए नला मौहल्ला में प्रवेश करते हुए रोड क्रॉस करके पश्चिम की ओर कल्याण सहाय पोस्ट मास्टर के मकान से कय्यूम कबाड़ी के मकान को शामिल करके नला में उतरते हुए पिपलेश्वर मंदिर से चलते हुए बडाबास की सीमा में प्रवेश करते हुए कुमाउ के मकान को लेते हुए मोहन खुंटेटा के मकान को शामिल करते हुये पश्चिम की ओर चलते हुये मालियान मंदिर को शामिल करते हुये बलराम सैनी के मकान को छोड़ते सप्पू खान के मकान को शामिल करते हुये उत्तर की ओर घूमते हुये देशवालियान मस्जिद को शामिल करते हुए जागीरदार की चक्की से पूर्व की ओर बढ़ते हुए व शोरगर का मकान व सत्तार पार्षद के मकान से गोपाल रैगर के मकान के सामने भगवान सहाय रैगर के मकान व मंदिर तक की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 33 में है।
34.	नले मौहल्ले में लक्ष्मण चौकीदार के मकान से शुरू होकर दक्षिणी-पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए विनोद पीटीआई के मकान को शामिल करते हुए गंगावत के मकान को छोड़ते हुए अलादीन खां के मकान को शामिल करते हुए इन्दिरा पब्लिक स्कूल को शामिल करते हुए बाबूलाल के मकान को शामिल करते हुए पश्चिमी-उत्तरी दिशा की ओर बढ़ते हुए राजेन्द्र मोदी की दुकान को छोड़ते हुए रामोतार पंजाबी की दुकान को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए फय्याज बसवा वाले के मकान को छोड़ते हुए सेंट आफिज स्कूल को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए नथथन खां के मकान को शामिल करते हुए उत्तरी दिशा की ओर बढ़ते हुए शेखान मस्जिद को शामिल करते हुए इस्लाम भाई के मकान को शामिल करते हुए शब्बीर टेंट हाउस को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुडकर एसके टेंट हाउस को शामिल करते हुए पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए हफीज भाई के मकान को शामिल करते हुए मुनीर खां के मकान को शामिल करते हुए मोहन कुम्हार के मकान को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए बलराम माली के मकान को शामिल करते हुए रामजीलाल खुंटेटा के मकान को शामिल करते हुए कय्यूम कबाड़ी के मकान को छोड़ते हुए लक्ष्मण चौकीदार के मकान तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 34 में है।
35.	सदर चौक में हाजी अब्दुल गफ्फार नाकेदार के मकान से शुरू होकर उत्तरी दिशा की ओर बढ़ते हुए गंगासहाय माली के मकान को छोड़ते हुए बट्टी सैनी के मकान को शामिल करते हुए पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए हरिनारायण गोडीवाल के मकान को शामिल करते हुए पूर्वी-

	<p>दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते हुए रामस्वरूप बेनीवाल के मकान को छोड़ते हुए पूरणचन्द के मकान को लेते हुए जाकिर के मकान को लेते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए हीरालाल बेनिवाल के मकान को शामिल करते हुए बाबूलाल नरानिया के मकान को छोड़ते हुए नन्दा खटीक के मकान को शामिल करते हुए मोहन बेनिवाल के मकान को छोड़ते हुए पूर्वी-दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते हुए फिरोज किराना स्टोर को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए भगवान रैगर के मकान को छोड़ते हुए मुन्ना शाह के मकान को शामिल करते हुए सत्तार खां के मकान को शामिल करते हुए शिपू खां के मकान को छोड़ते हुए इमाम बाडा को शामिल करते हुए पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए शेखान मस्जिद को छोड़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए सब्बीर टेंट हाउस को लेते हुए बेलियान मस्जिद को शामिल करते हुए सफीक टायर वाले के मकान को शामिल करते हुए सदर चौक में पहुंचकर अब्दुल गफ्फार के मकान तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 35 में है।</p>
36.	<p>लालसोट रोड पर दौसा टेंट हाउस से शुरू होकर उत्तरी दिशा की ओर बढ़ते हुए विश्वप्रिय नागर के मकान को शामिल करते हुए रामकरण जोशी स्कूल को शामिल करते हुए पूजा फाइनैस की दुकान को शामिल करते हुए पूनम टॉकिज को शामिल करते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए लक्षकार की दुकान को शामिल करते हुए पूर्वी-दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते हुए शम्भूदयाल डिगारिया वाले के मकान को शामिल करते हुए राधेश्याम शर्मा के मकान को शामिल करते हुए रमेश चन्द्र शर्मा के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण में मुडकर नवदेश्वर महादेव मंदिर को शामिल करते हुए पूर्व की ओर मुडते हुए ट्रांसफार्मर को शामिल करते हुए मदीना मस्जिद को शामिल करते हुए उतर की ओर बढ़ते हुये रैगर श्मशान को शामिल करते हुये पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुये लल्लू सामरिया के मकान को शामिल करते हुये दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हुये किशनलाल बेनीवाल के मकान को शामिल करते हुये राजकुमार सामरिया के मकान को शामिल करते हुये पिन्टु भगवासा के मकान को शामिल करते हुये पूनीलाल राजोरिया के मकान को शामिल करते हुए प्रकाश मल्हौत्रा के मकान को छोड़ते हुए धर्मा खटीक के मकान को शामिल करते हुए रामकिशोर नरानिया के मकान को छोड़ते हुए कमला नावरिया के मकान को शामिल करते हुए हीरा बेनिवाल के मकान को छोड़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर मुडते हुए मलखान सांखला के मकान को छोड़ते हुए नन्दलाल बेनिवाल के मकान को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुडकर रामेश्वर बेनिवाल के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा की ओर मुडकर बट्टी सैनी के मकान को छोड़ते हुए गंगासहाय माली के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अब्दुल गफ्फार के मकान को छोड़ते हुए मुंशीज हाउस को शामिल करते हुए पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए सैनी भवन को छोड़ते हुए लड्डू पान वाले की दुकान को छोड़ते हुए लालसोट रोड पर पहुंचकर दौसा टेंट हाउस तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 36 में है।</p>
37.	<p>खटीकान सामुदायिक केन्द्र से प्रारम्भ होकर मदीना मस्जिद को छोड़ते हुये रोड के सहारे सहारे पश्चिम की ओर चलते हुये सूर सागर को शामिल कर उत्तर को मुडते हुये दिनेश चन्द शर्मा को शामिल करते हुये नर्बदेश्वर महोदय मन्दिर को छोड़ते हुये पश्चिम की तरफ मुडते हुये भवानी सिंह के मकान को शामिल करते हुये भंवर सिंह राठौड के मकान को शामिल</p>

	<p>करते हुये नाथू हरिजन(श्याम बाबा का चबूतरा) के मकान को शामिल करते हुये चित्रागंन भवन को शामिल करते हुये पूर्व को मुडकर कजोडमल देवतवाल के मकान को शामिल कर मान क्लब की बाउन्ड्री के सहारे-सहारे सुलभ शौचालय को शामिल कर श्यामा इन्सटीट्यूट (सुशीला भवन) को शामिल करते हुये कमल मीना के मकान को शामिल कर दक्षिण की ओर मुडते हुये संस्कार भारती स्कूल को शामिल करते हुये मुरलीधर के मकान को लेते हुये दिनेश शर्मा के मकान को लेते हुये दक्षिण की ओर मुडकर प्रभू दयाल जी आभानेरी वाले के मकान को छोडते हुये महाकाल इलेक्ट्रीक को शामिल करते हुये महात्मा आश्रम को शामिल करते हुये मौर्य सदन को शामिल करते हुये बिलारा भवन को शामिल कर पश्चिम की ओर मुडते हुये सामरिया भवन को छोडते हुये रूपनारायण बेनीवाल के मकान को शामिल करते हुये रैगर श्मशान को छोडते हुये सैनी श्मशान के सहारे-सहारे दक्षिण की ओर मुडकर खटिकान सामुदायिक भवन तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 37 में है।</p>
38.	<p>गांधी सर्किल पर पतडियों की दुकान से शुरू होकर पूर्व की तरफ आगरा की तरफ चलते हुये पुराने बस स्टैण्ड को शामिल करते हुये पीडब्ल्यूडी कार्यालय को शामिल करते हुये प्रभात लॉन को शामिल करते हुये नाथूलाल महावर के मकान को शामिल करते हुये दक्षिण दिशा में बढते हुये रामू महावर के मकान को लेते हुये परशुराम धर्मशाला को छोडते हुये डॉ. शिव शर्मा के मकान को शामिल करते हुये प्रभूदयाल शर्मा आभानेरी वाले के मकान को छोडते हुये खाली भूखण्ड को शामिल करते हुये पश्चिम दिशा की ओर बढते हुये जैमन परिवार के मकान को शामिल करते हुये मुरारी लाल शर्मा के मकान को लेते हुये सुरजन सिंह के मकान को शामिल करते हुये कमल मीना के मकान को छोडते हुये जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट के मकान को शामिल करते हुये जैमन पुरोहितो के मकान को शामिल करते हुये सुशीला भवन को छोडते हुये छीतर वर्मा के मकान को शामिल करते हुये सुलभ कॉम्पलेक्स को छोडते हुये मानक्लब के डंडे के सहारे-सहारे दक्षिणी दिशा की ओर चलते हुये गोडीवाल भवन को शामिल करते हुये चन्द्रपाल कानखेडिया के मकान को शामिल करते हुये रामलाल देवतवाल के मकान को शामिल करते हुये चित्रागंन भवन को छोडते हुये कल्याण सहाय शर्मा के मकान को शामिल करते हुये शंभूदयाल शर्मा ढिगारिया वाले के मकान को शामिल करते हुये नाथू हरिजन के मकान को छोडते हुये पूनम टॉकिज को छोडते हुये पश्चिमी-उत्तरी दिशा की ओर बढते हुये लक्ष्मणस्वरूप पेट्रोल पम्प को छोडते हुये सब्जी मण्डी को शामिल करते हुये गांधी सर्किल पर पहुंचकर पतडिया की दुकानों तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 38 में है।</p>
39.	<p>खटिकान पुलिया से शुरू होकर पूर्व की ओर चलते हुये खटिकान बगीची को छोडते हुये प्रकाश मल्हौत्रा के मकान को शामिल करते हुये पूनीलाल राजोरिया के मकान को छोडते हुये पूर्व की ओर आगे चलते हुये सोजीराम सामरिया के मकान को शामिल करते हुये रोड क्रॉस कर रामजीलाल सामरिया के मकान को शामिल करते हुये पिन्ट भगवासा के मकान को छोडते हुये उत्तर दिशा में श्मशान के रास्ते को चलते हुये तिवाडी श्मशान की पश्चिमी दिवार को शामिल करते हुये नानकराम सामरिया के मकान को शामिल करते हुये पूर्व की ओर चलते हुये राजकुमार सामरिया के मकान को छोडते हुये रूपनारायण सामरिया के मकान को शामिल करते हुये दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये किशन बेनीवाल के मकान को छोडते हुये तिवाडी श्मशान का मुख्य द्वार को लेते हुये महेश प्रिन्टिंग प्रेस को लेते हुये सीधे जगदीश रैगर के</p>

	<p>मकान को छोड़ते हुए रतन हरिजन के मकान को शामिल करते हुए गुलाब रैगर के मकान को शामिल करते हुए रामदेव मंदिर को छोड़ते हुए बबलू रैगर के मकान को शामिल करते हुए शिव मंदिर को छोड़ते हुए पूर्व की ओर मुडकर भगवान रैगर के मकान को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की आबादी को लेते हुए मुश्ताक भाई के मकान को छोड़ते हुए रामकिशोर नावरिया के मकान को शामिल करते हुए किरण खटीक के मकान को छोड़ते हुए खटिकान पुलिया तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 39 में है।</p>
40.	<p>एनएच-21 पूर्व एनएच-11 आगरा रोड स्थित वेयर हाउस के सामने रामसहाय महावर के मकान से शुरू होकर पूर्व की ओर आगरा रोड पर चलते हुए रामबाबू तिवाड़ी के मकान को शामिल करते हुए चौधरी पेट्रोल पम्प को शामिल करते हुए रमेश त्रिवेदी के मकान को शामिल करते हुए जायसवाल कोठी को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा में मुडकर दौसा नर्सिंग होम को शामिल करते हुए पीजी कॉलेज की बाउन्ड्री को छोड़ते हुए प्रभूजी शर्मा कोर्ट वाले के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा में मुडकर पप्पू कण्डेरा के मकान को शामिल कर जगदीश शर्मा चतुर्वेदी के मकान को शामिल करते हुए वहां से दक्षिण में मुडकर पश्चिमी आबादी को लेते हुए ओमप्रकाश जी प्रधान के मकान को लेते हुए रामदयाल बाबा के मकान को छोड़ते हुए गोरधन पंडा के मकान को शामिल करते हुए दक्षिणी-पश्चिमी दिशा की ओर मुडते हुए फलसे वाले बालाजी के मंदिर को शामिल करते हुए पथवारी को शामिल करते हुए धर्मा चक्की को शामिल करते हुए मोहन महावर जेईएन के मकान को छोड़ते हुए रोड क्रॉस कर हीरालाल वर्मा के मकान को शामिल करते हुए हरचन्दा रैगर के मकान को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर मुडकर सौरगर मकान को शामिल करते हुए महात्मा आश्रम को छोड़ते हुए परशुराम धर्मशाला को शामिल करते हुए श्यामदेवी मेमोरियल नर्सिंग होम को शामिल करते हुए रामू महावर के मकान को छोड़ते हुए रामसहाय महावर के मकान तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 40 में है।</p>
41.	<p>दौसा खुर्द स्थित ओमप्रकाश नवादया के मकान से शुरू होकर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए प्रभू शर्मा के मकान को शामिल करते हुए प्रहलाद शर्मा के मकान को शामिल करते हुए बजरंग लाल शर्मा के मकान को छोड़ते हुए रामजीलाल के मकान को शामिल करते हुए गोकूल दौलाला के मकान को छोड़ते हुए पंचायत चौक को छोड़ते हुए पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए रामसहाय शर्मा के मकान को शामिल करते हुए गोपाल जी के मंदिर को शामिल करते हुए जगदीश नारायण शर्मा अध्यापक के मकान को शामिल करते हुए जगदीश शर्मा (रोडवेज वाले) के मकान को छोड़ते हुये उदयभान गुर्जर पूर्व पार्श्व के बाडे को शामिल करते हुये नारायण महावर के मकान को शामिल करते हुये नाथूलाल महावर की दुकानों को शामिल करते हुये दक्षिण दिशा में लगातार चलते हुये माधोलाल महावर के मकान को लेते हुये पश्चिम उत्तर दिशा की ओर घूमते हुये भगवान सहाय भगत के मकान को लेते हुये रोड क्रॉस कर गिर्राज गुर्जर के मकान को लेते हुये रणजीता धोबी के मकान को लेते हुये स्व० गोविन्दा गुर्जर के मकान को शामिल कर पश्चिम की ओर चलते हुये रामधन गुर्जर के बाडे को शामिल करते हुये रघुनन्दन प्रसाद गुप्ता के मकान को शामिल करते हुये उत्तर दिशा की ओर चलते हुये ताराचन्द गुर्जर व जामा मस्जिद को शामिल करते हुये भगवान सहाय कुम्हार के मकान को शामिल करते हुये बुन्दु बैंड मास्टर के मकान को शामिल करते हुये फलसे</p>

	<p>वाला बालाजी रोड पर चलते हुये पुष्पेन्द्र तिवाडी के मकान को लेते हुये महेश शर्मा के मकान को लेते हुये फलसे वाले बालाजी मन्दिर को छोड़ते हुये राजेन्द्र हरियाणा पूर्व पार्श्वद के मकान को शामिल करते हुये सीधे चलते हुये सत्यनारायण शर्मा रोडवेज वाले के मकान को लेते हुये दौसा खुर्द स्कूल को छोड़ते हुए दौसा खुर्द स्थित ओमप्रकाश नवाद्या के मकान तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 41 में है।</p>
42.	<p>एनएच-21 पूर्व एनएच-11 आगरा रोड पर पीजी कॉलेज के पश्चिमी-उत्तरी कोने से शुरू होकर आगरा रोड पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए पीजी कॉलेज को शामिल करते हुए पीजी कॉलेज की उत्तरी-पूर्वी कोने से दक्षिण दिशा की ओर घूमकर पीजी कॉलेज की बाउन्ड्री को लेते हुए पानी की टंकी को शामिल करते हुए भांड बस्ती दौसा खुर्द को शामिल करते हुए वहां से पूर्व की ओर चलते हुए पार्क को लेते हुए प्रकाश सौलंकी के मकान को शामिल करते हुए फायर स्टेशन को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा में चलते हुए गिराज जैमन के मकान को शामिल करते हुए नगरीय सीमा पर पहुंचकर नगरीय सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए उत्तरी दिशा की आबादी को शामिल करते हुए भगवान सहाय शर्मा के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए रामसहाय शर्मा के मकान को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर चलते हुए गोकुल दौलाला के मकान को शामिल करते हुए बजरंग लाल शर्मा के मकान को शामिल करते हुए प्रभु शर्मा के मकान को छोड़ते हुए कुंजीलाल शर्मा के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम की ओर मुडकर ओमप्रकाश नवादा के मकान को छोड़ते हुए दौसा खुर्द स्कूल को शामिल करते हुए भगवान सहाय शर्मा के मकान को शामिल करते हुए प्रकाश शर्मा पूर्व पार्श्वद के मकान को शामिल करते हुए महेश शर्मा के मकान को छोड़ते हुए रामदयाल बाबा के मकान को शामिल कर पूर्वी दिशा में चलते हुए रामोतार बटवाल के मकान को शामिल करते हुए बोहरा मोटर्स आईटीआई को शामिल करते हुए पीजी कॉलेज की दिवार के सहारे-सहारे पश्चिम की ओर चलते हुए दक्षिण-पश्चिमी कोने से उत्तर दिशा की ओर चलकर पीजी कॉलेज के पश्चिमी-उत्तरी कोने तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 42 में है।</p>
43.	<p>एनएच-21 पूर्व एनएच-11 आगरा रोड पर सोमनाथ सर्किल से दक्षिण दिशा में मुडकर श्रीनाथ जनरल स्टोर को लेते हुए बडाय्या टेडर्स को लेते हुए अमर सिंह के मकान को लेते हुए सोमनाथ मंदिर को लेते हुए विष्णु टेंट हाउस को लेते हुए पश्चिम की ओर मुडते हुए नगरीय सीमा के सहारे-सहारे मीन भगवान मंदिर को शामिल करते हुए खाली भूमि को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की चलकर विमला देवी विष्णु जैमन लांका वाले के मकान होते हुए पश्चिम दिशा की ओर चलकर ललित किशोर गुप्ता को शामिल करते हुए मुन्ना कुमार शर्मा को शामिल करते हुए फायर स्टेशन फायर रेस्ट हाउस को शामिल करते हुए भांड बस्ती को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर मुडकर कॉलेज बाउन्ड्री के सहारे-सहारे देवेश एन्टरप्राइजेज को शामिल करते हुए पूर्व दिशा की ओर एनएच-21 पूर्व एनएच-11 आगरा रोड पर मुडकर शारदा हॉस्पिटल को शामिल करते हुए हनुमान मंदिर को शामिल करते हुए मुकुट बिहारी शर्मा के मकान को शामिल करते हुए बस डिपो को छोड़ते हुए प्रिमियम ग्लास को शामिल करते हुए गुर्जर छात्रावास को शामिल करते हुए सावरिया को शामिल करते हुए बाबूलाल पहाडिया को शामिल करते हुए डॉ० आरडी शर्मा के मकान को शामिल करते हुए लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार को शामिल करते हुए रामबाबू के मकान को लेते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुडकर श्रीनाथ</p>

	जनरल स्टोर तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 43 में है।
44.	सोमनाथ सर्किल पर अरूण मोटर्स से शुरू होकर पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए राज आयरन टेडर्स को शामिल करते हुए सूर्य मंदिर को शामिल करते हुए सरस्वती कॉलेज को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा में मुड़कर एवीएम स्कूल को शामिल करते हुए भानू जनरल स्टोर को शामिल करते हुए बाबूलाल गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए नगरीय सीमा पर पहुंचकर सीमा के सहारे-सहारे पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुए भौमिया जी के मंदिर को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर चलते हुए सोमनाथ मंदिर को छोड़ते हुए बटवाल कॉम्प्लेक्स को शामिल करते हुए अरूण मोटर्स तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 44 में है।
45.	एनएच-21, पूर्व एनएच-11 आगरा रोड पर सरस्वती कॉलेज को छोड़ते हुए उसके कोने से शुरू होकर पूर्व की ओर चलते हुए सन्त सुन्दरदास स्मारक को शामिल करते हुए सैनी इंजिनियरिंग वर्क्स को शामिल करते हुए ट्रांसफार्म तक पहुंचकर उत्तरी दिशा की ओर मुड़कर बाबूलाल मीणा के मकान को शामिल करते हुए रामोतार मीणा के मकान को शामिल करते हुए पूर्वी दिशा की समस्त आबादी को लेते हुए लोकेश मीणा के मकान को शामिल करते हुए घूमना हाउस को शामिल करते हुए नरेन्द्र मीणा के मकान को शामिल करते हुए पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए श्रीराम कॉलोनी की आबादी को शामिल करते हुए राजकीय आईटीआई कॉलेज को छोड़ते हुए नगरीय सीमा पर पहुंचकर नगरीय सीमा के सहारे-सहारे दक्षिणी-पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए दक्षिणी दिशा में नगरीय सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए आगरा रोड पर पहुंचकर पश्चिमी दिशा के ओर सीमा के सहारे-सहारे चलते हुए उत्तरी आबादी को शामिल करते हुए मूलचन्द बैरवा के मकान को शामिल करते हुए उत्तर दिशा में चलकर देवतवाल परिवार को शामिल करते हुए मीणा भवन व आयूष कॉलेज को शामिल करते हुए एनएच-21, पूर्व एनएच-11 आगरा रोड तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 45 में है।
46.	एनएच-21, पूर्व एनएच-11 आगरा रोड पर सोमनाथ सर्किल से गोपाल लाल जांगिड के मकान को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की ओर चलते हुए राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय के मकान को शामिल करते हुए शंकर लाल त्रिवेदी के मकान को शामिल करते हुए ललित शर्मा के मकान को शामिल करते हुए उत्तरी-पूर्वी दिशा में मुड़कर हरिओम शर्मा के मकान को लेते हुए पावर हाउस को शामिल करते हुए शिवलहरी शर्मा के मकान को शामिल करते हुए हनुमान सिंह चन्देल के मकान को शामिल करते हुए कृष्णा आईटीआई कॉलेज को छोड़ते हुए बाईपास रोड पर पहुंचकर जांगिड धर्मशाला को छोड़ते हुए पूर्वी आबादी में आवासन मण्डल की आबादी को शामिल करते हुए रेल्वे लाईन को क्रॉस कर नगरीय सीमा तक पहुंचकर नगरीय सीमा के सहारे-सहारे उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए हैलीपेड को शामिल करते हुए सर्किट हाउस को शामिल करते हुए रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे नगरीय सीमा के सहारे सहारे दक्षिणी पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए नरसरी प्लांट को शामिल कर नगरीय सीमा के सहारे सहारे दक्षिणी-पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुए राजकीय आईटीआई कॉलेज को शामिल करते हुए उत्तरी-पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुए नरेन्द्र मीणा के मकान को छोड़ते हुए घूमना हाउस को छोड़ते हुए मेवाराम मीणा के मकान को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर पाल के सहारे-सहारे चलते हुए महेश मीणा के मकान को शामिल करते हुए दक्षिणी दिशा में

	<p>चलते हुए रामप्रसाद मीणा के मकान को शामिल करते हुए खाली भूखण्ड को शामिल करते हुए पश्चिमी दिशा को चलते हुए सैनी इन्जि० वर्क्स को छोड़ते हुए रतन सिंह राजपूत के मकान को शामिल करते हुए इम्पल्स स्कूल को शामिल करते हुए श्रीराम टेडर्स को शामिल करते हुए आरके मार्बल को शामिल करते हुए शिव स्टील को शामिल करते हुए अरुण मोटर्स को छोड़ते हुए सोमनाथ चौराहे पर गोपाल लाल जांगिड के मकान तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 46 में है।</p>
47.	<p>एनएच-21 पूर्व एनएच-11 आगरा रोड पर स्थित बस डिपो की पश्चिमी बाउन्ड्री को शामिल करते हुये उत्तर दिशा की ओर चलते हुए श्रवण बैरवा के मकान को शामिल कर पश्चिम दिशा की ओर घूमते हुये ओपी बैरवा प्लाट नंबर एफ-326/4 के मकान को छोड़ते हुये बद्रीनारायण डोरिया के मकान को शामिल करते हुये बी.एल मीना सबेदार मेजर के मकान को शामिल कर उत्तर की ओर चलते हुये कालू मीणा के मकान को छोड़ते हुए भरत लाल मीणा के मकान को छोड़ते हुये लालाराम भावती के मकान को शामिल करते हुए रामखिलाडी मीणा के मकान को शामिल करते हुए रेल्वे लाईन तक पहुंचकर उत्तरी पूर्वी दिशा में रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे चलते हुए बाईपास पुलिया के नीचे से दक्षिणी-पूर्वी दिशा में चलते हुए जांगिड धर्मशाला को शामिल करते हुए तिवाडी भवन को शामिल करते हुए कृष्णा आईटीआई कॉलेज को शामिल करते हुए दक्षिणी-पश्चिमी दिशा में चलते हुए सियाराम गुर्जर के मकान को शामिल करते हुए राजाराम गुर्जर देहरादून को शामिल करते हुए बद्रीनारायण मीणा के मकान को शामिल करते हुए प्रधान पैराडाईज को शामिल करते हुए मंदिर तक पहुंचकर दक्षिणी दिशा की ओर चलते हुए मोहनलाल गुप्ता के मकान को शामिल करते हुए सुरेश मीणा के मकान को शामिल करते हुए गिराज प्रसाद मीणा के मकान को छोड़ते हुए चौधरी हाउस को शामिल करते हुए नाथू धोबी के मकान को शामिल करते हुए पश्चिमी दिशा में चलते हुए एनएच-21 पूर्व एनएच-11 आगरा रोड पर चलते हुए राजधारी हॉस्पिटल को शामिल करते हुए डीओ माध्यमिक कार्यालय को शामिल करते हुए बस डिपो तक के बीच के समस्त आबादी वार्ड नम्बर 47 में है।</p>
48.	<p>एनएच-21 पूर्व एनएच-11 पर रोडवेज बस डिपो के पश्चिम दिशा से कोठोट्या भवन को शामिल करते हुए इंडियन बैंक को शामिल करते हुए चिरंजीलाल जांगिड के मकान को लेते हुए लक्की खण्डेलवाल के मकान को लेते हुए महेश नांगलवाला को लेते हुए हरियाणा कॉम्प्लैक्स को शामिल करते हुए एनएच-21 पूर्व एनएच-11 से उत्तर की तरफ चलते हुए प्रकाश शर्मा के मकान को शामिल करते हुए बालाजी दूध भण्डार को शामिल करते हुए पूर्व की तरफ चलकर गोपाल शर्मा के मकान को शामिल कर उत्तरी-पूर्वी चलकर संतोष सैन के मकान को लेते हुए घनश्याम शर्मा कोलवा वाले के मकान को लेते हुए एमएल जुरावत को शामिल करते हुए उत्तरी-पूर्वी घूमते हुए छुट्टन लाल मीणा के मकान को शामिल कर पूर्व में संतोष मीणा के मकान को शामिल करते हुए उत्तरी दिशा में हेमराज मीणा को शामिल कर उत्तरी-पूर्वी दिशा में रघुवीर सिंह को शामिल कर रामफूल तंगड के मकान को छोड़ते हुये पूर्व में विधूडी भवन को शामिल कर उत्तरी-पूर्वी दिशा में चलकर उत्तर की तरफ चलकर पूर्व में रामखिलाडी मीणा संतोष मीणा आरएएस के मकान को शामिल कर कैलाश मीणा के मकान को शामिल</p>

	<p>करते हुए रामेश्वर मीणा के मकान को शामिल करते हुए हरिनारायण मीणा के मकान को शामिल करते हुए उत्तर दिशा की तरफ रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे पूर्वी दिशा में चलते हुए दक्षिण की तरफ बस डिपो वाले रोड पर चलते हुए कल्याण सहाय मीणा के मकान को शामिल कर रामखिलाडी मीणा के मकान को छोड़ते हुए लालाराम भांवती के मकान को छोड़ते हुए भरतलाल मीणा /केशन्ती मीणा प्लॉट एफ- 345/1 को लेते हुये कालूराम मीणा के मकान को शामिल करते हुए रतीराम मीणा के मकान को शामिल करते हुये रोड क्रांस कर पूर्व की ओर चलते हुये बाबूलाल मीणा मुही के मकान को लेते हुये रामकरण गुर्जर के मकान को शामिल करते हुये बद्रीनारायण डोरिया के मकान को छोड़ते हुये व श्रवण बैरवा के मकान को छोड़ते हुये रोडवेज डिपो की बाउन्ड्री पर पहुंचकर ओ.पी. बैरवा मकान नंबर एफ-326/4 को शामिल करते हुये डिपो बाउन्ड्री के सहारे-सहारे सुरेन्द्र कुमार गौड के मकान को शामिल करते हुये दक्षिण दिशा में चलते हुये एनएच-21, पूर्व एनएच-11 पर पहुंचकर कोठोट्या भवन तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 48 में है।</p>
49.	<p>एनएच-21, पूर्व एनएच-11 पर पीजी कॉलेज के सामने राय नर्सिंग होम से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर चलते हुए श्रमण मीणा मैनेजर के मकान को शामिल करते हुए रूपनारायण शर्मा को शामिल करते हुए कैलाश चन्द्र शर्मा को शामिल करते हुए गणपत लाल शर्मा आरआई के मकान को शामिल करते हुए सत्यनारायण शर्मा के मकान को शामिल करते हुए सुरेश चन्द्र शर्मा के मकान को शामिल करते हुए नवल शर्मा के मकान को शामिल करते हुए रेल्वे लाईन तक पहुंचकर रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे पूर्व की ओर मुड़ते हुए जमूरा रेल्वे फाटक से उत्तर की ओर मुड़ते हुए जमूरा ढाणी को छोड़ते हुए जयपुर बाईपास तक पहुंचकर बाईपास के सहारे-सहारे पूर्व की ओर रेल्वे ऑवरब्रिज तक पहुंचकर रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे होते हुए दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए पश्चिम की तरफ केदार मीणा के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ चलकर आशीष मीणा के मकान को शामिल करते हुए बृजमोहन मीणा के मकान को शामिल करते हुए नमोनारायण मीणा के मकान को शामिल करते हुए सरपंच बैरवा के मकान से पश्चिम की तरफ चलते हुए शिवराज मीणा के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ चलते हुए महावीर फौजी के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम की तरफ चलते हुए रामथल मीणा के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ चलते हुए हजारि लाल मीणा के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम की तरफ चलते हुए लक्ष्मीनारायण मीणा के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए चेताराम धन्धेल के मकान को शामिल करते हुए जयनारायण बैरवा के मकान को शामिल करते हुए जेएस चौहान को शामिल करते हुए पश्चिमी दिशा की तरफ चलते हुए दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए आशा विला से पश्चिम की तरफ से दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए बालाजी दूध भण्डार को छोड़ते हुए प्रकाश शर्मा को छोड़ते हुए हरियाणा कॉम्प्लेक्स को छोड़ते हुए एनएच-21, पूर्व एनएच-11 पर पीजी कॉलेज के सामने तक की आबादी वार्ड नम्बर 49 में है।</p>
50.	<p>एनएच-21, पूर्व एनएच-11 आगरा रोड स्थित वेयर हाउस से शुरू होकर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए कैलाश सैनी की दुकान को लेते हुए कजोड भांकरी वाले के मकान को शामिल करते हुए केशव गुप्ता के मकान को छोड़ते हुए शीतला माता के मंदिर को छोड़कर पूर्व की</p>

	<p>ओर मुडकर सैनी विद्यालय को छोड़ते हुए बीएस मीना के मकान को शामिल करते हुए वहां से उत्तर की ओर मुडकर कजोड मीणा बीएसएनएल वाले के मकान को शामिल करते हुए इन्दावा भवन को शामिल करते हुए रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे पूर्व की ओर मुडकर महेश्वरा रेल्वे फाटक को क्रॉस करते हुए दक्षिणी समस्त आबादी को शामिल कर दक्षिण ओर खाली खेतों के को शामिल करते हुए हरियाणा खेत को शामिल करते हुए नवल किशोर शर्मा के मकान को छोड़ते हुए सुरेश चन्द शर्मा के मकान को छोड़ते हुए गणपत आरआई के मकान को छोड़ते हुए गिर्राज आरएसईबी वाले के मकान को शामिल करते हुए अनिल बंसल के मकान को शामिल करते हुए जमनानन्द शर्मा एलआईसी वाले के मकान को शामिल करते हुए राय नर्सिंग होम को शामिल करते हुए राय नर्सिंग होम से आगरा रोड पर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए कौशल्या हॉस्पिटल को शामिल करते हुए पिंकी हॉटल को शामिल करते हुए महेश्वरा रोड को क्रॉस कर उत्तरी आबादी को शामिल करते हुए फर्स्ट टॉवर को शामिल करते हुए सौंखिया बुकडिपो को शामिल करते हुए तिवाडी धर्मकांटा को शामिल करते हुए वेयर हाउस तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 50 में है।</p>
51.	<p>रेल्वे ऑवरब्रिज/फाटक से शुरू होकर पूर्व दिशा की ओर रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे चलते हुए गोलछा गार्डन को छोड़ते हुए जडाव फाटक को छोड़ते हुए जडाव फाटक को क्रॉस करते हुए पूर्व दिशा की ओर चलते हुए समस्त दक्षिणी आबादी को लेते हुए इन्दावा भवन को छोड़ते हुए दक्षिण की ओर मुडकर कजोड जी के बाड़े को शामिल करते हुए रामस्वरूप मीणा के मकान को शामिल करते हुए रामकल्याण मीणा पूर्व प्रधान के मकान को शामिल करते हुए वहां से पश्चिम की ओर मुडते हुए सैनी विद्यालय को शामिल करते हुए शीतला माता मंदिर को शामिल करते हुए वहां से दक्षिण की ओर मुडकर कैलाश गुप्ता के मकान को लेते हुए नाथूलाल सैनी के मकान को लेते हुए अरुण कारपेंटर की दुकान को शामिल करते हुए कैलाश सैनी की दुकान को छोड़ते हुए वहां से पश्चिम की ओर चलते हुए गांधी सर्किल को छोड़ते हुए उत्तर दिशा की समस्त आबादी को शामिल करते हुए थाना कोतवाली को शामिल करते हुए रेल्वे स्टेशन को शामिल करते हुए रैन बसेरा को शामिल करते हुए कटारिया भवन को छोड़ते हुए रेल्वे ऑवरब्रिज/फाटक तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 51 में है।</p>
52.	<p>रेलवे लाईन से उत्तर दिशा की ओर कजोड मीणा के खाली प्लॉट व ट्रान्सफार्मर से शुरू होकर पपलाज माता किराना स्टोर को शामिल करते हुये बिमलेश जी गोविन्द सैनी के मकान को शामिल करते हुये प्रभात लोहडी राम मीणा के खेत को शामिल करते हुये पप्पू माली के खेत को छोड़ते हुये पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये रामोतार मीणा के खेत को शामिल करते हुये फिर उत्तर की ओर मुडते हुये प्रभू सैनी के मकान को शामिल करते हुये मांगीलाल सैनी के प्लाट व दुकान को शामिल करते हुये वहां से पश्चिम दिशा की ओर बाईपास रोड पर चलते हुये श्रीराम होटल को शामिल करते हुये महेश्वरा बाईपास चौराहा को क्रॉस कर बाईपास के सहारे-सहारे कुएं तक पहुंच कर कुएं से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये बाबूलाल दौलत राम के मकान को शामिल करते हुये और जमुरा की ढाणी को शामिल करते हुये रेलवे लाईन तक लाईन के सहारे सहारे दक्षिणी दिशा की ओर बडते हुये महेश्वरा फाटक को क्रॉस कर रेलवे लाईन के सहारे सहारे चलते हुये ट्रान्सफार्मर व कजोड मीणा के खाली प्लाट तक के</p>

	बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 52 में है।
53.	रेलवे लाईन से शुरू होकर गोलछा फैक्ट्री को छोड़ते हुए झंड़ू राम मीणा के मकान को शामिल करते हुये कैलाश मीणा के मकान को शामिल करते हुये फौजी के मकान को शामिल करते हुये हरलाल मीणा के मकान को छोड़ते हुए ट्रान्सफार्मर को शामिल करते हुये उत्तर दिशा की ओर चलते हुये गंगाधर मीणा के मकान को शामिल करते हुये सैनी गौदाम को शामिल करते हुये इन्द्र मीणा के मकान जगदीश बोझया के बाउन्ड्री वाल को छोड़ते हुये पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये कल्याण चौथमल मीणा के खेत को शामिल करते हुये पप्पू माली ड्राइवर के खेत को शामिल करते हुये प्रभात लोहडिया मीणा के खेत को छोड़ते हुये दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये परीत बाबा के स्थान को शामिल करते हुये ओमप्रकाश शर्मा के मकान को शामिल करते हुये मुकेश मीणा के मकान तक पहुंच कर रेलवे लाईन के सहारे सहारे पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुये उत्तरी आबादी को शामिल करते हुये गोलछा फैक्ट्री तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 53 में है।
54.	रेलवे स्टेशन के सामने गोलछा फैक्ट्री से शुरू होकर प्रभूलाल मीणा के मकान को शामिल करते हुये उत्तर दिशा की ओर चलते हुये पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये भरतलाल मीणा के मकान को शामिल करते हुये रामजीलाल टेंट हाउस को छोड़ते हुये कैलाश मीणा के मकान को शामिल करते हुये रामखिलाडी मीणा के मकान को छोड़ते हुये पश्चिम की ओर मुड़कर रमेश मीणा के मकान को छोड़ते हुये फिर उत्तर की ओर मुड़कर खाली खेत को छोड़ते हुये लोहडी राम मीणा के मकान को शामिल करते हुये मुकेश के मकान को शामिल करते हुये गिराज मीणा के मकान को शामिल करते हुये मोती मीणा के मकान को शामिल करते हुये बाईपास रोड पर आगरा की तरफ बढ़ते हुये दक्षिण दिशा की आबादी को शामिल करते हुये हरनारायण के खेत तक पहुंच कर मांगीराम सैनी के प्लाट को छोड़ते हुये दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये कानाराम सैनी के मकान को शामिल करते हुये धन्नलाल मीणा के खेत व दुकान को शामिल करते हुये जगदीश बोझया की बाउन्ड्री वाल को शामिल करते हुये ट्रान्सफार्मर व फौजी के मकान को छोड़ते हुये हरलाल मीणा के मकान को शामिल करते हुये अजीत मीणा के मकान को शामिल करते हुये भरत लाल मीणा के मकान को शामिल करते हुये रेलवे लाईन तक पहुंचकर दक्षिणी-पश्चिम दिशा की ओर रेलवे लाईन के सहारे-सहारे चलते हुये रेलवे स्टेशन के सामने गोलछा फैक्ट्री तक के बीच की समस्त आबादी वार्ड नम्बर 54 में है।
55.	सैंथल बाईपास सर्किल से सैंथल के उत्तर में चलते हुए सीधे हनुमान किराना स्टोर को शामिल करते हुए अयोध्या नगर के पूर्व की ओर चलते हुए अशोक शर्मा व्यासा के नोहरे वालों के मकान को शामिल करते हुए सत्यनारायण के मकान को शामिल करते हुए बाबूलाल

<p>शर्मा आरएसईबी के मकान को शामिल करते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हुए सिविल लाईन क्वार्टरों को शामिल करते हुए भरत लाल मीना सरपंच के मकान को शामिल करते हुए पुलिस लाईन की घुडसाल को शामिल करते हुए महेश्वरा रोड को क्रॉस करके पुलिस लाईन को शामिल करते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हुए रेल्वे लाईन से लगती सीमा को लेते हुए पश्चिम की ओर घूमते हुए सिविल लाईन से सैंथल बाईपास सर्किल तक की समस्त बीच की आबादी वार्ड नम्बर 55 में है।</p>
--

आयुक्त
नगरपरिषद दौसा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।